

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 जुलाई 2023—आषाढ़ 15, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 15, 1945)

क्र. 12288-मप्रविस-15-विधान-2023.—विधान सभा सचिवालय द्वारा दिनांक 6 जून, 2023 (ज्येष्ठ 16, 1945) को जारी अधिसूचना क्र. 10604/मप्रविस-15/विधान/2023 के स्थान पर राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित पुनरीक्षित आदेश दिनांक 6 जुलाई, 2023 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा, इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 10 जुलाई, 2023 के स्थान पर अब मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 6 जुलाई, 2023

मंगुभाई पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.